

## यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा

### प्रलिस के लिये:

संवैधानिक प्रावधान और संबंधित पहल।

### मेन्स के लिये:

बाल यौन शोषण से संबंधित मुद्दे और आवश्यक कदम, बच्चों से संबंधित मुद्दे।

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की बेंच ने इस मुद्दे पर एक वभिजति फैसला दिया है कि क्या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो)** की धारा 23 के तहत अपराध की जाँच पर लागू होगी।

- सीआरपीसी की धारा 155 (2) के अनुसार, एक पुलिस अधिकारी मजस्ट्रेट के आदेश के बिना गैर-संज्ञेय अपराध की जाँच नहीं कर सकता है।
- POCSO की धारा 23 यौन अपराध पीड़िता की पहचान का खुलासा करने के अपराध से संबंधित है।
- न्यायाधीशों में से एक ने कहा कि एक बच्चे की पहचान का खुलासा करना जो यौन अपराधों का शिकार है या जो कानून का उल्लंघन करता है, बच्चे के सम्मान के अधिकार, शर्मदा न होने के अधिकार का मौलिक उल्लंघन है।

## बाल यौन शोषण से संबंधित मुद्दे:

- बहुस्तरीय समस्या:** बाल यौन शोषण एक बहुस्तरीय समस्या है जो बच्चों की शारीरिक सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और व्यवहार संबंधी पहलुओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कारण प्रवर्द्धन:** मोबाइल और डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने बाल शोषण को और अधिक बढ़ा दिया है। ऑनलाइन चोरी, उत्पीड़न और चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे बाल शोषण के नए रूप भी सामने आए हैं।
- अप्रभावी विधान:** हालाँकि भारत सरकार ने **यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो अधिनियम)** अधिनियमित किया है, लेकिन यह बच्चे को यौन शोषण से बचाने में वफ़िल रहा है। इसके नमिनलखित कारण हो सकते हैं:
  - दोषसिद्धि की नमिन दर:** POCSO अधिनियम के तहत दोषसिद्धि की दर केवल लगभग 32% है यदि कोई पछिले 5 वर्षों का औसत निकाले तो लंबित मामले लगभग 90% हैं।
  - न्यायिक वलिंब:** कठुआ बलात्कार मामले में मुख्य आरोपी को दोषी ठहराने में 16 महीने लग गए, जबकि पॉक्सो अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मामले की पूरी सुनवाई तथा दोषसिद्धि की प्रक्रिया एक साल में पूरी करनी होगी।
  - बच्चे के प्रतभितरता का अभाव:** बच्चे की आयु-नरिधारण से संबंधित चुनौतियाँ वशिष रूप से ऐसे कानून जो जैविक उम्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि मानसिक उम्र पर।

## संबंधित पहल:

- बाल शोषण रोकथाम एवं जाँच इकाई**
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ**
- कशिोर न्याय अधिनियम/देखभाल और संरक्षण अधिनियम, 2000**
- बाल वविह प्रतषिध अधिनियम (2006)**
- बाल शर्म नषिध एवं वनिधिमन अधिनियम, 2016**

## संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- संवधान प्रतयेक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार (अनुच्छेद 21), व्यक्तगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), नजिता का

अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और/या भेदभाव के वरिद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15), शोषण के वरिद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 और 24) की गारंटी देता है।

◦ **6-14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये नशिल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा** का अधिकार (अनुच्छेद 21 A)।

- राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और विशेष रूप से अनुच्छेद 39 (F) द्वारा बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्रता व सम्मान की स्थिति में विकसित होने के अवसर व सुविधाएँ दी जाएँ, बाल्यावस्था और युवावस्था में नैतिक एवं भौतिक शोषण से बचाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य के दायित्व को निर्धारित किया गया।

## आगे की राह

- बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण करते हुए दुरुव्यवहार के खिलाफ रोकथाम गतिविधियों को प्राथमिकता देना समय की मांग है।
- कानूनी ढाँचे, नीतियों, राष्ट्रीय रणनीतियों और मानकों के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु माता-पिता, स्कूलों, समुदायों, गैर-सरकारी संगठनों के भागीदारों और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ पुलिस तथा वकीलों को शामिल करने के लिये एक व्यापक आउटरीच प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।

## वर्गित वर्षों के प्रश्न:

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के संदर्भ में नमिनलखिति पर वचिार कीजयि: (2010)

1. विकास का अधिकार
2. अभवियक्तिका अधिकार
3. मनोरंजन का अधिकार

उपरयुक्त में से कौन-सा/से बच्चे का/के अधिकार है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: द हट्टि